

प्रेस नोट

चोरी के आभूषणों के साथ वांछित चोर रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार ।



श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी द्वारा गंभीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय तथा सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली महोदय व श्री वेद प्रकाश राय प्रभारी निरीक्षक थाना रामनगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना रामनगर पुलिस टीम में शामिल उ0नि0 जितेन्द्र गुप्ता चेकिंग में मामूर थे की जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि आपके थाने पर पंजीकृत चोरी के मुकदमे का अभियुक्त पीएसी तिराहे पर खड़ा है, यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर फैण्टम 9 के कर्मचारीगण हे0का0 प्रमोद कुमार सिंह व का0 राहुल प्रथम को साथ लेकर पीएसी तिराहा पहुँचा जहाँ मुखबीर द्वारा बताये गये व्यक्ति को एकबारगी दबिश देकर घेरघार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अजय यादव पुत्र बिन्दु यादव निवासी 4/583 पुराना रामनगर वारीगढही थाना रामनगर बताया तथा जामा तालाशी ली गयी तो अभियुक्त के पास से एक अदद करधनी पायल छः जोडा, क्लिप एक जोडा, चैन दो अदद, कडा टूटा हुआ एक जोडा, बिछिया तीन अदद सफेद धातु व सिकडी एक अदद, नथुनी एक अदद, नाक की कील एक अदद पीली धातु बरामद हुआ । बरामदशुदा आभूषणों के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछ-ताछ की गयी तो बताया कि साहब ये गहने मैने कल्लू यादव के घर से चुराये थे जिन्हे बेचने के लिए जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बताते हुए

आज दिनांक 26.06.2021 समय करीब 08.45 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 0153/2021 धारा 380/457/411 भादवि बनाम 1. अजय यादव पुत्र बिन्दु यादव निवासी 4/583 पुराना रामनगर वारीगढही थाना रामनगर, वाराणसी उम्र 23 वर्ष ।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अजय यादव पुत्र बिन्दु यादव निवासी 4/583 पुराना रामनगर वारीगढही थाना रामनगर वाराणसी उम्र 23 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान:- पीएसी तिराहा, थाना रामनगर, कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय- 26.06.2021 समय 08.45 बजे ।

विवरण बरामदगी:-

1. एक अदद करधनी पायल छः जोडा, क्लिप एक जोडा, चैन दो अदद, कडा टूटा हुआ एक जोड़ा, बिछिया तीन अदद सफेद धातु, व सिकडी एक अदद, नथुनी एक अदद, नाक की कील एक अदद पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0सं0 0153/2021 धारा 380/457/411 भादवि बरामद हुआ

गिरफ्तारी/ बरामदगी टीम थाना रामनगर वाराणसी :-

1. उ0नि0 जितेन्द्र गुप्ता, चौकी प्रभारी कस्बा थाना रामनगर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।
2. हे0का0 प्रमोद कुमार सिंह थाना रामनगर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 राहुल प्रथम थाना रामनगर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।